

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मुख्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 सितम्बर 2010—आश्विन 5, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर)

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. 15-एफ-1-26-2010-अठारह-3-क्र. 606-जिशिविअ-न.पं.-परि-प्रकाशन-2010.—नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर पंचायत शाहगंज, जिला सीहोर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती हैः—

अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)	वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
1.	महात्मा गांधी वार्ड	8.	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
2.	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	9.	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
3.	देवी अहिल्याबाई वार्ड	10.	स्वामी विवेकानंद वार्ड
4.	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	11.	श्री चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
5.	महर्षि वाल्मीकी वार्ड	12.	भगतसिंह वार्ड
6.	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड	13.	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
7.	छत्रपति शिवाजी वार्ड	14.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
		15.	रानी दुर्गावती वार्ड

संदीप यादव, कलेक्टर.

नगर पंचायत शाहगंज, जिला सीहोर के वार्डों की चतु: सीमाएं

वार्ड क्रमांक 01—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर— नगर पंचायत के ओवर हैड टेंक से श्री बैनीप्रसाद यादव के घर से होते हुए पोठिया नाला तक.

पूर्व— बकतरा मार्ग.

दक्षिण— भोपाल मार्ग.

पश्चिम— पोठिया नाला.

वार्ड क्रमांक 02—महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड

उत्तर— श्री संतोष गुप्ता की दुकान से अल्लाफ कुरेशी, गफूर खाँ के घर तक.

पूर्व— बकतरा मार्ग पर बैंक इण्डिया से श्री संतोष गुप्ता के मकान तक.

दक्षिण— श्री रामगोपाल दुबे जी के मकान से पशुपति दुबे के मकान से होते हुए श्री मनुलाल बसोड़ के मकान तक.

पश्चिम— श्री मनुलाल बसोड़ के मकान से प्रकाश मेहरा, रमेश यादव के मकान से होते हुए श्री ललित कुमार पण्डित के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 03—देवी अहिल्या बाई वार्ड

उत्तर— श्री सालकराम साहू के मकान से मंजूर मिया चक्की बाले से श्री नरेश वकील, इदरीश मिया के घर से सलीम मटेरियल वाले के घर से होते हुए पोठिया नाले तक.

पूर्व— बकतरा मार्ग पर श्री सालकराम साहू के मकान से श्री महेश शर्मा विडियो वाले के घर तक.

दक्षिण— बकतरा रोड पर श्री महेश शर्मा के घर से मूलचन्द्र एवं देवचन्द्र यादव के घर से होते हुए पोठिया नाला तक.

पश्चिम— पोठिया नाला (देवचन्द्र यादव के घर छन्नु खाँ घोड़े वाले के घर तक).

वार्ड क्रमांक 04—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

उत्तर— कमला बाई/ रामचरण के मकान से प्रकाश आ. श्री बदामीलाल के मकान तक.

पूर्व— अशफाक के मकान से कमलाबाई/ रामचरण के मकान तक.

दक्षिण— अशफाक के मकान से नरेश नाथ एवं मनु खाँ के मकान से होते हुए पोठिया नाला तक.

पश्चिम— पोठिया नाला (श्री मुसद्दी लाल जी के घर से शंकरलाल बंशकार, रामचरण बैंक वाले के घर तक).

वार्ड क्रमांक 05—महर्षि वाल्मीकी वार्ड

उत्तर— अकोला रोड पर श्री यादराम आ. पृथ्वी अहिरवार, रामचरण आ. सटल्ली अहिरवार के घर तक.

पूर्व— श्री हस्सू शाह के घर से शकील मटेरियल वाले के घर से सलीम टेन्ट वाले के घर तक.

दक्षिण— मस्जिद से गुल्लू खाँ के घर तक.

पश्चिम— श्री गुल्लू खाँ के घर से अशफाक, सरोज बाई अहिरवार के घर से संतोष अहिरवार के घर से होते हुए अकोला रोड तक.

वार्ड क्रमांक 06—डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

उत्तर— बकतरा रोड पर पेट्रोल पम्प से श्री प्रमोद गौर के घर तक (बकतरा रोड क्रास करने के बाद).

पूर्व— पेट्रोल पम्प से बकतरा रोड पर श्री टी. एल. श्रीवास्तव के मकान तक.

दक्षिण— श्री टी. एल. श्रीवास्तव के घर से साजिद खाँ के घर तक.

पश्चिम— साजिद खाँ के घर से प्रमोद गौर के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 07—छत्रपति शिवाजी वार्ड

उत्तर— श्री रामरतन की भूमि खसरा नं. 895 से शिवहरे के मकान तक.

पूर्व— श्री रामरतन की भूमि, खसरा नं. 895 से शा. कन्या हाई सेकेन्डरी स्कूल के पीछे नर्मदा नदी की ओर.

दक्षिण— गोपाल केवट के मकान से श्री सुरेश चन्द्र सराठे के घर से होते हुए द्वारका प्रसाद विश्वकर्मा के मकान तक.

पश्चिम— बकतरा रोड पर द्वारका प्रसाद विश्वकर्मा के मकान से मतीन भाई के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 08—सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड

उत्तर— प्रतिमा अस्पताल से श्रीमती ऊषा पंडित बहन जी के घर से होते हुए नर्मदा नदी तक.

पूर्व— श्रीमती ऊषा पंडित मेडम से पुरानी बस्ती ओव्हर हेड टैंक एवं बालक हायर सेकेण्ड्री से नर्मदा जी की ओर.

दक्षिण— रेस्ट हाउस रोड पर नर्मदा नदी से बालक हायर सेकेण्ड्री स्कूल बाजार होते हुए बस स्टैण्ड भोपाल चौराहा तक.

पश्चिम— भोपाल चौराहा से बकतरा रोड पर प्रतिमा अस्पताल तक.

वार्ड क्रमांक 09—लालबहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर— रेस्ट हाउस रोड पर श्री राम भरोस दुबे के मकान से श्री ब्रजमोहन पटेल के घर तक.

पूर्व— श्री ब्रजमोहन पटेल के घर से झूला वाले के घर से होते हुए बाबूलाल एवं श्री धर्मादास गौर मास्टर जी के घर तक.

दक्षिण— श्री धर्मादास गौर मास्टर जी के घर से शफीक, व्यास जी एवं ग्यारसी यादव के घर तक.

पश्चिम— श्री शफीक के मकान से श्री रामभरोस दुबे के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 10—स्वामी विवेकानन्द वार्ड

उत्तर— उप रेन्ज/ फारेस्ट ऑफिस से महेश यादव के घर से होते हुए पुनु पटेल, प्रेमनारायण विश्वकर्मा एवं श्री बद्री गौर के मकान तक.

पूर्व— श्री बद्री गौर के मकान से संतोष, कमलेश, विष्णु के घर से होते हुए कैलाश चौबे के घर तक.

दक्षिण— श्री कैलाश चौबे के मकान से होते हुए छोटा मंदिर तक.

पश्चिम— छोटे मंदिर से श्री मनो जी लाल के घर से होते हुए मंसूर अहमद, वहीद नेता जी से उप रेन्ज/ फारेस्ट ऑफिस तक.

वार्ड क्रमांक 11—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर— झीलपुरा में श्री हरिशंकर गौर मास्टर के घर से नर्मदा नदी की ओर.

पूर्व— नर्मदा नदी.

दक्षिण— श्री दुर्गाप्रसाद/ छोटेराम गौर से नर्मदा नदी की ओर.

पश्चिम— श्री दुर्गाप्रसाद गौर से मॉगीलाल, महेश गुरु, श्री रमेश गौर के घर से श्री शंकर, चिंतामन गौर आदि के मकान से होते हुए हरिशंकर गौर (मास्टर) के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 12—भगत सिंह वार्ड

उत्तर— श्री प्रेमनारायण भार्गव के घर से दुर्गा बाबा, सुनील विजय, मोनू विजयवर्गीय, विजयराम सराठे से होते हुए जगदीश मंदिर तक.

पूर्व— जगदीश मंदिर से नर्मदा नदी की ओर.

दक्षिण— ढीमर मोहल्ला से नर्मदा नदी की ओर.

पश्चिम— प्रेमनारायण भार्गव के मकान से खेड़ापति नर्मदा जी की ओर.

वार्ड क्रमांक 13—डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

उत्तर— जाहिद खँॉ के घर से श्री रमेश मालवीय, रामदास गौर के मकान तक.

पूर्व— श्री रामनाथ जी भार्गव, रघुनाथ प्रसाद जी तिवारी, महेश पालीबाल, श्री गिरधारी शर्मा के घर से होते हुए खेड़ापति मंदिर तक.

दक्षिण— नर्मदा नदी.

पश्चिम— जाहिद खँॉ के मकान से श्री गिरजा शंकर जी पाण्डे के घर तक.

वार्ड क्रमांक 14—पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

उत्तर— कन्या प्राथमिक शाला, पुरानी बस्ती से लैंडिया नाले की ओर.

पूर्व— स्कूल से सुदामा दीक्षित जी के मकान की ओर.

दक्षिण— सुदामा दीक्षित से नाला होते हुए अहीर मोहल्ले तक.

पश्चिम— अहीर मोहल्ले से नर्मदा परियोजना कार्यालय के पास तक.

वार्ड क्रमांक 15—रानी दुर्गावती वार्ड

उत्तर— पुराने बस स्टैण्ड से भोपाल मार्ग पर पोठिया नाले तक.

पूर्व— पुराने बस स्टैण्ड से रामप्रसाद विजयवर्गीय की दुकान से नौशेर मिया के मकान तक.

दक्षिण— नौशेर मिया से इंदिरा आवास कालोनी एवं राजेश चांडक के खेत होते हुए नयापुरा तक.

पश्चिम— नयापुरा होते हुए पोठिया नाला (भोपाल मार्ग).

Four Direction of Wards of Nagar Panchayat Shahganj, Distt. Sehore

Ward No. 01—Mahatma Gandhi Ward

North—From over head tank of Nagar Panchayat to Pothiya Nala Via house of Shri Beni Prasad Yadav.

East— Baktara Road.

South—Bhopal Road

West—Pothiya Nala.

Ward No. 02—Maharani Laxmi Bai Ward

North—From shop of Shri Santosh Gupta to house of Altaf Kureshi and Gaphoor Khan.

East— From Bank of India to Shri house of shri Santosh Gupta on Baktara Road.

South—From house of Shri Ramgopal Dubey Ji to house of Shri Mannu Lal Basod Via house of Shri Pasupati Dubey.

West—From house of Shri Mannu Lal Basod to house of Shri Lalit Kumar Dubey Via house of Shri Parkash Mehra and Ramesh Yadav.

Ward No. 03—Devi Ahillya Bai Ward

North—From house of Salakram Sahu Via house of Shri Manjoor Miya (Floor Mill) and house of Advocate Naresh and Idrish Miya to house of Saleem (Material Supplier) to Pothiya Nala.

East— From house of Shri Salakram Sahu to house of Shri Mahesh (Video) on Baktara Road.

South—From house of Shri Mahesh Sharma Via house of Shri Moolchand and Shri Devchand to Pothiya Nala.

West—Pothiya Nala (From house of Shri Devchand Yadav to house of Shri Chhanu horse owner).

Ward No. 04—Dr. Ambedkar Ward

North—From house of Kamla W/o Shri Ramcharan to house of Shri Prakash S/o Badamilal.

East— From house of Asfak to house of Kamla W/o Shri Ramcharan.

South—From house of Shri Asfak to Pothiya Nala Via house of Shri Naresh Nath and Mannu Khan.

West—Pothiya Nala (From house of Shri Musaddi Lal and house of Shri Shankar Banskar and Ramcharn (Bank)).

Ward No. 05—Maharishi Balmiki Ward

North—On Akola Road from house of Shri Yaadram S/o Parthvi Ahirwar and Ramcharn S/o Satalli Ahirawar.

East— From house of Hassu Shah to house of Shri Shakeel and Saleem Tant house.

South—From Masjid to house of Shri Gullu Khan.

West—From house of Gullu Khan to house of Shri Asfak and Smt. Saroj Bai Ahirwar Via house of Santosh Ahiwar to Akola Road.

Ward No. 06—Dr. Zakir Hussain Ward

North—From Petrol Pump to house of Shri Pramod Gour Via crossing Baktra Road.

East— From Petrol Pump to house of Shri T. L. Shrivastav on Baktra Road.

South—From house of Shri T. L. Shrivastav to house of Sajid Khan.

West—From house of Shri Sajid Khan to house of Shri Pramod Gour.

Ward No. 07—Chharapati Shivaji Ward

North—From Khasra No. 895 Land of Shri Ramratan to house of Shri Shivhare.

East— From Khara No. 895 Land of Shri Ramratan to Govt. Girls H. S. School to towards Narmada River.

South—From house of Shri Gopal Kevat to house of Shri Dwarka Prasad Vishwakarma Via house of Suresh Chandra Sarathe.

West—On Baktara Road from house of Shri Dwarka Prasad Vishwakarma to house of Mateen Bhai.

Ward No. 08—Sardar Ballabh Bhai Patel Ward

North—From Pratima Hospital to Narmada River via house of Bahan Usha Pandit.

East— From house of Smt. Usha Pandit Madam to over head tank of Purani Basti and Govt. Boys H. S. School towards Narmada ji.

South—From Narmada River via Govt. Boys H. S. School, Bus Stand to Bhopal Chouraha on Rest house road.

West—Bhopal Chouraha to Pratima hospital on Baktara Road.

Ward No. 09— Lal Bahaddur Shastri Ward

North—From house of Shri Rambharosh Dubey to house of Shri Brajmohan Patel on Rest house road.

East— From house of Brajmohan Patel to house of Shri Babulal and Shri Dharmdas Gour (Teacher) via house of Jhoola Wala.

South—From house of Shri Dharmdas Gour (Teacher) to house of Shri Shafiq, Vyasji and Gyarsi Yadav

West—From house of Shri Shafiq to house of Shri Rambharosh Dubey.

Ward No. 10— Swami Vivekanand Ward

North—From Sub Range/Forest Office to house of Shri Punnu Patel, Premnarayan Vishwakarma and Shri Badri Gour via house of Mahesh Yadav.

East— From house of Badri Gour to house of Shri Kailash Chouvey via house of Sontosh, Kamlesh and Vishnu.

South—From house of Kailash Chouvey via Small Temple.

West—From Small Temple to house of Mansoor Ahmad, Vaheed Neta ji to Office of sub range/forest office.

Ward No. 11— Shri Chandra Shekhar Ajad Ward

North—From house of Shri Harishankar in Jheelpura towards Narmada River.

East— Narmada river.

South—From house of Durga Prasad s/o Chhoteram Gour towards Narmada river.

West—From house of durga Prasad to house Harishankar Gour (Teacher) via house of Mangilal, Mahesh Guru, Shri Ramesh Gour to house of Shri Shankar, Chintaman Gour etc.

Ward No. 12— Bhagat Singh Ward

North—From house of Premnarayan Bhargaw to Jagdish Temple via house of Durga Baba, Sunil Vijay, Monu Vijayvargiye and Vijayram Sarathe.

East— From Jagdish Mandir towards Narmada River.

South—From Dhimar Mohalla toward Narmada River.

West—From house of Premnarayan Bhargaw toward Narmada River.

Ward No. 13— Dr. Shyama Prasad Mukharji Ward

North—From house of Jahid Khan to house of Shri Ramesh Malviya and Ramdas Gour.

East— To Khedapati Mandir via house of Shri Ramnath Bhagaw, Ragunath Prasad Tiwari, Mahesh Paliwal and Shri Girdhari Sharma.

South—Narmada River.

West—From house of Jahid Khan to house of Shri Girja Shankar Ji Pandey.

Ward No. 14— Pandit Deendayal Upadhyay Ward

North—From Govt. Girls H. S. School, Purani Basti to Landiya Nala

East— From School towards house of Sudama Dixit.

South—From house of Sudama Dixit to Ahir Mohalla via Nala.

West—From Ahir Mohalla to near office of Narmada Project.

Ward No. 15— Rani Durgawati Ward

North—From Old Bus Stand to Pothiya Nala on Bhopal Road.

East— From Old Bus Stand, Shop of Ram Prasad Vijayvargiye to house of Nousher Miya.

South—From house of Noser Miya to Nayapura via Indra Awas Colony and field of Rajesh Chandak

West—Pothiya Nala via (Bhopal road) to Nayapura.